



26 अप्रैल, 2021 से ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में बदलाव

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (12 अप्रैल, 2021) – यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा ट्रांज़िट सिस्टम, लोगों को सिटी में अच्छी तरह से गतिशील रख सकता है, सेवा में सुधार करने के लिए, 26 अप्रैल, 2021 से शुरू करते हुए, अगले नोटिस तक, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) के निम्नलिखित रूट शेड्यूल्स में बदलाव किया जाएगा:

- **505 ज़ूम बोवेअर्ड (505 Züm Bovaird):** कार्यदिवस और शनिवार वाले शेड्यूल
- **1 क्वीन (1 Queen):** रविवार वाले शेड्यूल
- **3/3A मैकलॉगलिन (3/3A McLaughlin):** कार्यदिवस, शनिवार और रविवार वाले शेड्यूल
- **5/5A बोवेअर्ड (5/5A Bovaird):** कार्यदिवस, शनिवार और रविवार वाले शेड्यूल
- **6 जेम्स पोट्टर (6 James Potter):** कार्यदिवस वाले शेड्यूल
- **9 वोडन (9 Vodden):** कार्यदिवस, शनिवार और रविवार वाले शेड्यूल
- **18 डिक्सी (18 Dixie):** कार्यदिवस वाले शेड्यूल
- **19 फ़र्नफोरेस्ट (19 Fernforest):** कार्यदिवस वाले शेड्यूल
- **26 माउंट प्लैज़ेंट (26 Mount Pleasant):** कार्यदिवस और शनिवार वाले शेड्यूल्स में बदलाव किया गया है
- **51 हेरफोर्ड (51 Hereford):** कनेक्शंस में सुधार करने के लिए, रात 11 बजे कार्यदिवस वाली पश्चिम की ओर की बस, ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल (Brampton Gateway Terminal) से रात 11:09 बजे चलेगी
- **54 काउंटी कोर्ट (54 County Court):** कार्यदिवस, शनिवार और रविवार वाले शेड्यूल

कृपया ट्रेवल करने से पहले रूट शेड्यूल देखें। ब्रैमली (Bramalea), ब्रैम्पटन गेटवे (Brampton Gateway) और डाउनटाउन (Downtown) टर्मिनल्स में टर्मिनल की बिल्डिंग का समय, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। ट्रिनिटी कॉमन (Trinity Common) टर्मिनल बंद रहेगा। टर्मिनल्स पर ग्राहक सेवा (Customer Service) घंटों के बारे में जानने के लिए, www.bramptontransit.com पर जाएं।

हमारी कम्युनिटी को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी के लिए भूमिका निभाना जरूरी है। कृपया याद रखें:

- टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर होने के समय चेहरे को ढकना या गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना जरूरी है – मेडिकल स्थितियों संबंधी छूटें लागू होती हैं। चेहरे को ढकने का मतलब है कि आपका नाक, मुंह और ठोड़ी हमेशा ढकी हुई हो।
- टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर, मास्क पहनकर भी, शारीरिक दूरी कायम रखें।
- सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।
- यदि आप बीमार हैं, तो कृपया ट्रांज़िट पर सफर करने से परहेज करें, नजदीकी कोविड (COVID-19) एसेसमेंट साइट में टेस्ट करवाएं और पब्लिक हेल्थ के निर्देशों का पालन करें।

कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय



अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फ़ैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से, सवारियों को याद दिलाया जाता है कि बसों पर और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल मास्क आवश्यक हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है।

नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca